



मैरिको जैसमीन और डाबर आंवला तेल की नकली फैक्ट्री का उद्भेदन

Publish Date: Mon, 27 May 2019 06:25 AM (IST)



सीतामढ़ी। एसडीपीओ सदर डॉ. कुमार वीर धीरेंद्र के नेतृत्व में रुन्नीसैदपुर थाना पुलिस ने रुन्नी गांव में छापेमारी कर डाबर आंवला और मैरिको जैसमीन केश तेल की नकली फैक्ट्री का उद्भेदन करते हुए धंधेबाज मनोज पंडित को गिरफ्तार कर न्यायिक हिरासत में भेज दिया। पुलिस ने मौके से बड़ी मात्रा में नकली आंवला और जैसमीन तेल, तेल निर्माण में प्रयुक्त सामग्री, रैपर, खाली बोतल आदि जब्त किया है। जब्त नकली तेल की कीमत लगभग 11.80 लाख रुपये बताई गई है। मधुबनी जिले के खजौली थाने के खजौली निवासी सह कंपनी के मुख्य जांच अधिकारी चंद्रेश्वर सिंह के आवेदन पर रुन्नीसैदपुर थाने में मनोज पंडित के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज की गई है। दर्ज प्राथमिकी के अनुसार उक्त धंधेबाज लंबे समय से रुन्नी गांव में नकली आंवला और जैसमीन केश तेल का निर्माण कर रहा था। इस तेल को सीतामढ़ी के ग्रामीण इलाकों के अलावा पड़ोसी देश नेपाल के बाजार में खपा रहा था। इलाके में नकली जैसमीन तेल बेचे जाने की सूचना के बाद जैसमीन तेल बनाने वाली मैरिको कंपनी की एक टीम पिछले तीन महीने से सीतामढ़ी के बाजारों में सर्वे कर जानकारी ले रही थी। इस क्रम में टीम को पता चला कि रुन्नीसैदपुर थाना के रुन्नी गांव में नकली जैसमीन तेल बनाई जा रही है। इसके बाद मैरिको कंपनी के मुख्य जांच अधिकारी चंद्रेश्वर सिंह ने डीएम और एसपी से मिल कर इसकी जानकारी दी। इसके बाद एसपी अनिल कुमार के निर्देश पर एसडीपीओ सदर डॉ. कुमार वीर धीरेंद्र ने रुन्नीसैदपुर पुलिस के साथ छापेमारी कर नकली डाबर आंवला केश तेल और मैरिको जैसमीन केश तेल की फैक्ट्री का उद्भेदन किया। वहीं नकली तेल और निर्माण में प्रयुक्त सामग्री जब्त किया। साथ ही मौके से धंधेबाज को दबोच लिया। मनोज पंडित रुन्नी बाजार स्थित अपने दुकान और मकान में ही नकली तेल बनाने का काम करता था। छापेमारी के दौरान पुलिस ने मैरिको कंपनी के नकली जैसमीन तेल का 2785 बोतल व 10000 पीस रैपर, 3000 पीस नकली हेयर एंड केयर का स्टीकर, डाबर कंपनी का नकली आंवला तेल 680 पीस, डाबर आंवला तेल का खाली बोतल 700 पीस व नकली रैपर लगा खाली प्लास्टिक बोतल 575 पीस, नकली रैपर 9500 पीस तथा मैरिको कंपनी का नकली प्लास्टिक का 600 बोतल जब्त किया गया।

Posted By: Jagran

Source: <https://www.jagran.com/bihar/sitamarhi-duplicate-marico-jasmine-and-dabur-amlacompany-came-in-light-19258159.html>